

अनिवासी व्यक्तियों के लिए खाता खोलने का फॉर्म

शाखा कोड

शाखा का नाम

खोलने का तरीका

 आमने - सामने बिना आमने - सामनेआवेदन तिथि I-किट गैर I-किट

कृपया निम्नलिखित खाता खोलें

खातों का प्रकार: NRE बचत NRO बचत दोनों अन्यखाते का प्रकार: नियमित ईवा इलीटसंचालन का तरीका टकेले दोनों में से कोई भी / कोई भी या उत्तरजीवी (डेबिट/ ATM कार्ड लागू नहीं) अभिभावक के अधीन नाबालिग

क्लाइंट के बारे में सूचना

पहला आवेदक

दूसरा आवेदक

बुनियादी विवरण

NRI स्थिति

संचार विवरण

UCIC (यदि मौजूदा ग्राहक है)

पहला नाम

मध्य नाम

उपनाम

श्रृंग

 पुरुष महिला तीसरा लिंग

जन्म की तारीख

पिता का नाम

मां का विवाह - पूर्व नाम

वैवाहिक स्थिति

 टकेला विवाहित अन्य

जीवनसाथी का नाम

PAN नंबर

 / फॉर्म 60

आधार नंबर

 वैकल्पिक

राजनीतिक रूप से सजग व्यक्ति

NRI स्थिति

 NRI (भारतीय पासपोर्ट) PIO (विदेशी पासपोर्ट) समुद्र यात्री

निवास का देश

राष्ट्रीयता

पासपोर्ट नंबर और जारी करने की तारीख

जारी करने वाला देश

समाप्ति तिथि

जारी करने की जगह

वीजा का प्रकार

 वीजा OCI कार्ड CDC

दस्तावेज प्रकार और संख्या

जारी करने की जगह

जारी करने की तिथि

समाप्ति तिथि

क्या आप एक US व्यक्ति हैं

 नहीं हाँयदि हाँ US के नागरिक ग्रीन कार्ड धारक US में पैदा हुआ

सामाजिक सुरक्षा संख्या

US निवासी के लिए

संचार के लिए पता

 विदेशी पता भारतीय पता

विदेशी पता

लैंडमार्क

शहर

राज्य

पिन कोड

देश

विदेशी मोबाइल नंबर

भारतीय पता

लैंडमार्क

शहर

राज्य

पिन कोड

देश

भारतीय मोबाइल नंबर

ईमेल ID

(इस ईमेल ID पर अलर्ट भेजा जाएगा।)

SMS अलर्ट के लिए मोबाइल नंबर विदेशी मोबाइल नंबर भारतीय मोबाइल नंबर (अलर्ट केवल प्रथम आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाएगा)

*वैकल्पिक के रूप में चिह्नित क्षेत्रों को छोड़कर पृष्ठ 1 में सभी क्षेत्र अनिवार्य हैं

पावती - ग्राहक प्रति

मैंने के लिए आवेदन किया है NRE बचत NRO बचत छोनों अन्यखाते का प्रकार: नियमित ईवा इलीट

उत्पाद का नाम: _____ श्रीमान/ श्रीमती/ सुश्री/ मैसर्स के नाम पर: _____ आवेदन संख्या: _____

प्रारंभिक भुगतान चेक नंबर के साथ: _____ रुपये का, _____ शब्दों में रुपये, _____

बैंक से: _____ मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि खाते से संबंधित नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है,

और अधिकारी: श्रीमान. _____ ने खाते से संबंधित सभी विवरणों को विस्तार से समझाया है।

नामांकन पंजीकृत: हाँ नहीं नामांकित व्यक्ति का नाम _____

अधिकारी के हस्ताक्षर: _____ बैंक अधिकारी का नाम: _____ फोन नंबर: _____

व्यवसाय और खाता गतिविधि:

पहला आवेदक

दूसरा आवेदक

*इस खाते का उद्देश्य: घरेलू खर्च बचत/निवेश अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

*धन स्रोत वेतन व्यापार आय विरासत निवेश ब्यत संपत्ति की बिक्री अन्य

*विदेश में कितने वर्ष 2 साल तक 2-5 साल 5 साल से ऊपर

*व्यवसाय प्रकार वेतनभोगी स्वनियोजित व्यवसाय विद्यार्थी समुद्री यात्री IT गृहिणी ब्रेजगार सेवानिवृत्त अन्य

a) यदि वेतनभोगी हैं, तो निम्न के साथ कार्यरत हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी सरकार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी PSU MNC अन्य

नियोक्ता का नाम

पद

b) यदि स्वरोजगार, पेशा CA डॉक्टर व्यापारी वकील निर्यातक/आयातक इंजीनियर अन्य

c) अगर व्यापार में हैं तो कब से वर्ष महीने संस्थापन की तारीख

व्यवसाय की प्रकृति उत्पादन सेवा प्रदाता कृषि स्टॉक ब्रोकर व्यापारी रियल एस्टेट अन्य

कंपनी/फर्म का नाम

कंपनी/फर्म का प्रकार पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड स्वामित्व साझेदारी अन्य

*मुद्रा का नाम जिसमें आप कमा रहे हैं:

*वार्षिक पारिवारिक आय (समतुल्य) < USD 30,000 USD 30,000-48,000 USD 48,000-72,000 USD 72,000-1,20,000 > USD 1,20,000

घरेलू खर्च बचत/निवेश अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

वेतन व्यापार आय विरासत निवेश ब्यत संपत्ति की बिक्री अन्य

2 साल तक 2-5 साल 5 साल से ऊपर

वेतनभोगी स्वनियोजित व्यवसाय विद्यार्थी समुद्री यात्री IT गृहिणी ब्रेजगार सेवानिवृत्त अन्य

पब्लिक लिमिटेड कंपनी सरकार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी PSU MNC अन्य

नियोक्ता का नाम

पद

CA डॉक्टर व्यापारी वकील निर्यातक/आयातक इंजीनियर अन्य

वर्ष महीने संस्थापन की तारीख

उत्पादन सेवा प्रदाता कृषि स्टॉक ब्रोकर व्यापारी रियल एस्टेट अन्य

पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड स्वामित्व साझेदारी अन्य

< USD 30,000 USD 30,000-48,000 USD 48,000-72,000 USD 72,000-1,20,000 > USD 1,20,000

PIO घोषणा

पहला आवेदक

दूसरा आवेदक

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं भारतीय मूल का व्यक्ति हूँ और पुष्टि करता हूँ कि: (कृपया आप पर लागू होने वाले विकल्प को चुनें)

A) मैंने अतीत में एक भारतीय पासपोर्ट धारण किया था (या) _____

B) मैं उस क्षेत्र से संबंधित हूँ जो 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया (या) _____

C) मैं भारत के संविधान या नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के आधार पर भारत का नागरिक हूँ। _____

D) मैं एक बच्चा/पिता/पुत्र/पुत्री हूँ, जो भारत का नागरिक है या खंड A या B में निर्दिष्ट व्यक्ति है (या) _____

मैं भारत के नागरिक के विदेशी मूल का पति/पत्नी हूँ या खंड A या B या C या D में संदर्भित व्यक्ति के विदेशी मूल का पति/पत्नी हूँ _____

दादाजी का नाम _____ दादाजी का नाम _____

जीवनसाथी का नाम _____ जीवनसाथी का नाम _____

FATCA : स्थिति विवरण के लिए

पहला आवेदक

दूसरा आवेदक

NRI के रूप में पहली बार विदेश यात्रा करने वाले ग्राहकों को कर पहचान संख्या/SSN नंबर (USA) प्रदान करने और इसके बजाय "उपलब्ध नहीं/धलागू नहीं" का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी विवरण अनिवार्य हैं

जन्म का शहर		
जन्म का देश		
क्या आप संयुक्त राज्य में कर निवासी/नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक हैं?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
मैं नीचे उल्लिखित देशों का कर निवासी हूँ	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
देश का नाम#		
कर पहचान संख्या (TIN)		
पहचान प्रकार (TIN/ अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें)		
कर उद्देश्य के लिए पता		
	PIN _____ राज्य _____	PIN _____ राज्य _____
कर उद्देश्य के लिए पता प्रकार	<input type="checkbox"/> आवासीय <input type="checkbox"/> व्यवसाय <input type="checkbox"/> पंजीकृत कार्यालय	<input type="checkbox"/> आवासीय <input type="checkbox"/> व्यवसाय <input type="checkbox"/> पंजीकृत कार्यालय

भुगतान विवरण और चौनल पहुंच अनुरोध

IP फंडिंग: मोजूदा ESFB AC से फंड ट्रांसफर _____ चेक (चेक A/c सी पेयी को पार किया जाना चाहिए और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक अकाउंट A/c को देय होना चाहिए ढावेदक का नाम)

कुल राशि INR	चेक/ट्रैन्ज़ैक्शन संख्या	चेक/ट्रैन्ज़ैक्शन तिथि	बैंक का नामज	शाखा

	डेबिट कार्ड		चेक बुक		चौनल पहुंच	
	पहला आवेदक	दूसरा आवेदक	पहला आवेदक	दूसरा आवेदक	पहला आवेदक	दूसरा आवेदक
NRE इंटरनेशनल डेबिट कार्ड	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	NRE : <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	<input type="checkbox"/> इंटरनेट बैंकिंग <input type="checkbox"/> इंस्टा अलर्ट	<input type="checkbox"/> इंटरनेट बैंकिंग
NRO घरेलू डेबिट कार्ड	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	NRO : <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	<input type="checkbox"/> मोबाइल बैंकिंग <input type="checkbox"/> केवल प्रथम धारक के लिए लागू	<input type="checkbox"/> मोबाइल बैंकिंग

*डेबिट कार्ड मानार्थ हैं - NRE डेबिट कार्ड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैध VISA/मास्टरकार्ड हैं और NRO डेबिट कार्ड रूपे प्लेटिनम कार्ड हैं जो भारत के भीतर उपयोग के लिए हैं। *प्रति गैर-आमने-सामने खाता खोलना एक NR/विदेशी खाते से निधियों का ट्रांसफर किया जाना है जहां खाता खोलने के 90 दिनों के भीतर KYC संकलित किया जाता है।

नियम और शर्तें

- खाता खोलने के लिए नियामक/बैंक अधिकारियों द्वारा अनिवार्य सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए
- लगातार तीन महीनों तक कोई वेतन जमा नहीं होने की स्थिति में, वेतन खाते को बचत नियमित खाते (वेतन खातों के लिए) में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
- बैंक ग्राहक को 30 दिनों का नोटिस देकर किसी भी खाते में किसी भी सेवा/सुविधा में किसी भी समय पूर्ण या आंशिक रूप से संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- सभी खातों को उत्पाद कार्यक्रम के आधार पर निर्धारित औसत त्रैमासिक शेष राशि को बनाए रखना चाहिए और इसका रखरखाव न करने की स्थिति में, उत्पाद संरक्षण पर लागू शुल्क लागू होंगे।
- बैंक लेनदेन और सेवाओं के संबंध में शुल्क और शुल्क लगाएंगे और इसे खाते से नामे करके वसूल किया जाएगा। शुल्कों को कवर करने के लिए धन की अपर्याप्तता के मामले में, जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती, तब तक बैंक के विवेक पर, एकमुश्त या समय अवधि में खाते में जमा से शुल्कों को विनियोजित किया जाएगा।
- व्यक्तियों द्वारा खोले गए बचत खाते केवल गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं और उन्हें बैंक के नियमों और शर्तों और RBI के मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।
- नाबालिग की ओर से उसके प्रकृतिक अभिभावक या सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक द्वारा खाता खोला जा सकता है। अभिभावक सभी लेनदेन में नाबालिग का प्रतिनिधित्व करेगा जब तक कि नाबालिग वयस्कता प्राप्त नहीं कर लेता है, जिस पर अभिभावक का खाता संचालित करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। अभिभावक नाबालिग के वयस्क होने की समय पर सूचना प्रस्तुत करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि नाबालिग के वयस्क होने के बाद भी उसके द्वारा खाते का संचालन जारी नहीं रखा जाएगा। ऐसी स्थिति में बैंक लिम्बेदार नहीं होता है। यदि खाताधारक बालिग होने पर KYC दोबारा जमा नहीं करता है तो खाता प्रीज कर दिया जाएगा।
- यदि बचत और चालू खातों के लिए ग्राहक द्वारा लगातार 2 वर्षों की अवधि के लिए खाते में कोई लेनदेन शुरू नहीं किया जाता है, तो खाते को निष्क्रिय माना जाएगा। एक निष्क्रिय खाते को सक्रिय करने के लिए सभी खाताधारकों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित निर्देश की आवश्यकता होती है और KYC दस्तावेज जमा करने और सक्रियण केवल होम शाखा में शुरू किया जाएगा।
- यदि खाता खोलने के बाद स्वागत किट "ऐसा कोई पता नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, पार्टी स्थानांतरित या अग्रु पता" जैसे कारणों से वितरित नहीं किया जाता है, तो बैंक ग्राहक तक पहुंचने के लिए आवश्यक प्रयास करने के बाद खाते को प्रीज करने के लिए बाध्य होगा।
- चालू खाता खोलने के लिए, किसी भी बैंक और उसकी शाखाओं के साथ मौजूदा ऋण सुविधाओं की घोषणा आवश्यक है।
- बैंक के किसी भी उत्पाद की विशेषताओं से संबंधित शिकायत, यदि कोई हो, तो हमारे टोल फ्री नंबर 1800 103 1222 पर बताई जा सकती है या आप समाधान के लिए बैंक के ग्राहक सेवा विभाग customerservice@equitasbank.com को लिख सकते हैं। यदि 30 दिनों के भीतर शिकायत का संतोषजनक समाधान नहीं होता है, तो आप क्षेत्र के बैंकिंग लोकपाल, भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

ESFB/NR/REGULAR_AOF/AN/2022

पसंदीदा खाता संख्या:

मेरे विदेशी मोबाइल नंबर को NRE खाता संख्या के रूप में और भारतीय मोबाइल नंबर को NRO खाता संख्या के रूप में उपयोग करें

मेरी पसंद का उपयोग करें खाता संख्या: NRE खाता संख्या के रूप में: NRO खाता संख्या के रूप में

मेरे मोबाइल नंबर को पहले आवेदक के लिए प्रदान की गई खाता संख्या के 10 अंकों के रूप में उपयोग न करें। *पसंदीदा अकाउंट नंबर का आवंटन उपलब्धता के अधीन है

फॉर्म 60 घोषणा पहला आवेदक दूसरा आवेदक

एक व्यक्ति या एक व्यक्ति (कंपनी या फर्म नहीं होने के कारण) द्वारा भरे जाने वाले घोषणा के लिए फॉर्म, जिसके पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और जो नियम 114B में निर्दिष्ट किसी भी लेनदेन में प्रवेश करता है।

यदि PAN के लिए आवेदन किया गया है और यह अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है, तो आवेदन की तिथि और पावती संख्या दर्ज करें:.....

यदि PAN लागू नहीं होता है, तो उस वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित कुल आय (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अनुसार पति या पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि की आय सहित) भरें, जिसमें उपरोक्त लेनदेन किया गया है।

a. कृषि आय रुपये

b. गैर कृषि आय रुपये

मैं,..... एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि जो ऊपर कहा गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है, मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मेरे पास कोई स्थायी खाता संख्या नहीं है और मेरीधमारी अनुमानित कुल आय (पति या पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि की आय सहित) की गणना वित्तीय वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है। जिसमें उपरोक्त लेनदेन किया जाता है, अधिकतम राशि से कम होगा जो कर के लिए प्रभार्य नहीं होगा।

एक व्यक्ति या एक व्यक्ति (कंपनी या फर्म नहीं होने के कारण) द्वारा भरे जाने वाले घोषणा के लिए फॉर्म, जिसके पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और जो नियम 114B में निर्दिष्ट किसी भी लेनदेन में प्रवेश करता है।

यदि PAN के लिए आवेदन किया गया है और यह अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है, तो आवेदन की तिथि और पावती संख्या दर्ज करें:.....

यदि PAN लागू नहीं होता है, तो उस वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित कुल आय (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अनुसार पति या पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि की आय सहित) भरें, जिसमें उपरोक्त लेनदेन किया गया है।

a. कृषि आय रुपये

b. गैर कृषि आय रुपये

मैं,..... एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि जो ऊपर कहा गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है, मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मेरे पास कोई स्थायी खाता संख्या नहीं है और मेरीधमारी अनुमानित कुल आय (पति या पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि की आय सहित) की गणना वित्तीय वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है। जिसमें उपरोक्त लेनदेन किया जाता है, अधिकतम राशि से कम होगा जो कर के लिए प्रभार्य नहीं होगा।

नामांकन

हां, मैं/हम नामांकित करना चाहते हैं (नीचे विवरण के अनुसार) नहीं, मैं/हम अपने खाते में नामांकन नहीं करना चाहते हैं और घोषणा करते हैं कि मैं/हम "नामांकन नहीं" से जुड़े जोखिम और कठिनाइयों को पूरी तरह से समझते हैं।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 452A के तहत बैंकिंग कंपनियों के नियम 2(1) के तहत नामांकन (बैंक जमा के संबंध में नामांकन नियम 1985, मैं/हम निम्नलिखित व्यक्ति को नामित करते हैं, जिसे मेरे/हमारे नाबालिग की मृत्यु की स्थिति में उपरोक्त खोले गए खाते/सावधि जमा/आवर्ती जमा की राशि, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा वापस की जा सकती है।

जमा की प्रकृति	नामांकित व्यक्ति का नाम	पता	जमाकर्ता के साथ संबंध	आयु	जन्म की तारीख
	यदि नामिती मौजूदा ग्राहक है तो कृपया UCIC का उल्लेख करें				

**चूंकि नामिती इस तिथि को अव्ययक है, मैं/हम नियुक्त करते हैं (नाम, पता और उम्र) नामिती की ओर से खाते में जमा राशि प्राप्त करने के लिए

नियम और शर्तें

मैंने/हमने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में खाता खोलने और विभिन्न सेवाओं से संबंधित नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है, जिसमें (a) ATMs (b) फोन बैंकिंग (c) नेट बैंकिंग (d) डेबिट कार्ड (e) मोबाइल बैंकिंग (f) धूल भुगतान सुविधा (g) इंस्टा अलर्ट सुविधा (h) ईमेल स्टेटमेंट शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। मैं/हम बैंक की देयता को छोड़कर/सीमित करने सहित उक्त नियमों और शर्तों से बाध्य होने के लिए स्वीकार करते हैं और सहमत हैं। मैं/हम समझते हैं कि बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर, मुझे/हमें किसी भी नोटिस के साथ कम से कम 30 दिनों के लिए किसी भी सेवा को पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद कर सकता है और या मुझे/हमें अन्य सेवाओं पर स्थगित करने का विकल्प प्रदान कर सकता है। मैं सहमत हूँ कि बैंक समय-समय पर लागू सेवा शुल्क के लिए मेरे खाते से डेबिट कर सकता है। मैं/हम बैंक को समय-समय पर मेरे बचत खाते से संबंधित किसी भी जानकारी का खुलासा करने के लिए किसी भी मात-पिता/सहायक को मेरे खाते की सेवा के प्रयोजनों, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के सहयोगी और सहयोगी, और बैंक द्वारा नियुक्त तृतीय पक्षों को प्रकट करने के लिए अधिकृत करते हैं।

i. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हम/हम विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (1999) और उसके तहत लागू नियमों, नियमों, अधिसूचना, निर्देश या आदेश के तहत (सामूहिक, "FEMA") परिभाषित भारतीय मूल के अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के PIO हैं। मैं/हम समझते हैं कि उपरोक्त खाता मेरे/हमारे द्वारा दिए गए कथनों/घोषणाओं के आधार पर खोला जाएगा, और मैं/हम यह भी सहमत हूँ कि यदि यहाँ दिए गए कथनों/घोषणाओं में से कोई भी तात्कालिक विवरणों में सही नहीं पाया जाता है, तो आप मेरे/हमारे द्वारा की गई जमा राशि पर किसी भी ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं हैं। मैं/हम एतद्वारा आपको मेरे/हमारी भारत वापसी के बारे में सूचित करने का वचन देते हैं, जो आगमन पर तुरंत स्थायी निवास के लिए होगा और NR खातों को निवासी खाते में बदल देगा, जहाँ कहीं, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में जहाँ कहीं भी ऐसा खाता संभव है।

ii. मैं/हम सहमत हूँ कि मेरे/हमारे द्वारा जमा की परिपक्वता की तारीख के बाद किसी भी अवधि के लिए जमा पर किसी भी ब्याज के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा। परिपक्वता के बाद जमा राशि को वापस नहीं लेने या नवीनीकृत नहीं करने के संबंध में, बैंक द्वारा देय ब्याज SB खाते पर लागू होगा, न कि अनुबंधित दर पर परिपक्वता तिथि के बाद।

iii. यदि NRO सावधि जमा न्यूनतम 7 दिनों की अवधि के लिए नहीं रखा गया है तो जमा पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार NRE सावधि जमा के लिए, यदि जमा को न्यूनतम 12 महीने की अवधि के लिए नहीं रखा गया है तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

iv. बैंक वर्ष में 365 दिनों के आधार पर ब्याज की गणना करता है, चाहे लीप वर्ष सहित वर्ष में दिनों की वास्तविक संख्या कुछ भी हो।

v. अस्थायी बीजा पर रोजगार के लिए मेरे/हमारे विदेश यात्रा के मामले में, मैं/हम अपना खाता खोलने की तारीख से 90 दिनों के भीतर नियमित या स्थायी बीजा जमा करने का वचन देते हैं।

vi. जब भी बैंक मुद्रा/हमें ऐसा करने के लिए कहता है, मैं/हम तुरंत KYC दस्तावेज जमा करने का वचन देते हैं।

vii. मैं/हम जानते हैं कि अंक और अक्षरों का अनुपालन करने में मेरे/हमारी ओर से विकलता, मैं/हम जानते हैं कि अनुपालन तक मेरा/हमारा खाता पूरी तरह से फ्रीज के तहत रखा जाएगा या बैंक अपने विवेक से खाते को खुराक देने का निर्णय ले सकता है। मैं/हम अनिवासी (बाहरी) खाते / अनिवासी (साधारण) खाता योजना / डेबिट कार्ड के प्रावधानों और मेरे/हमारे द्वारा लिए गए अन्य उत्पादों का पालन करने के लिए सहमत हूँ, जैसा कि FEMA अधिनियम और समय-समय पर जारी RBI दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट है।

x. मैं समझता हूँ कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक विदेशी मुद्रा अनिवासी (FCNR) जमा और निवासी विदेशी मुद्रा (RFC) जमा की पेशकश नहीं करता है।

viii. मैं/हम पुष्टि करेंगे कि भारत में निवेश के उद्देश्य से मेरे/हमारे खातों में सभी डेबिट और भारत में निवेश की वित्तीय आय का प्रतिनिधित्व करने वाले क्रेडिट या तो RBI की सामान्य या विशेष अनुमति द्वारा कवर किए जाते हैं। मैं यह सुनिश्चित करूँगा/गी कि आपके पास मेरे/हमारे खाते में रखी गई निधियों में से भारत में शेयरों/प्रतिभूतियों या अचल संपत्तियों में निवेश भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित विनियमों द्वारा शासित हैं। ऐसे लेनदेन होने की स्थिति में बचत बैंक खाते का उपयोग केवल गैर-व्यावसायिक/गैर-व्यावसायिक प्रकृति के लेनदेन को रूट करने के लिए किया जाएगा या ऐसे किसी भी लेन-देन को संदिग्ध या अवांछनीय माना जा सकता है, बैंक ऐसे खातों में परिचालन को एकतरफा रूप से फ्रीज करने और/या खातों को खुराक देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

xi. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि भारत में केवल वेध देय राशि जिसमें वर्तमान आय जैसे किराया, लामांश, पेंशन, ब्याज आदि शामिल होंगी, संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय जिसमें रुपयविदेशी मुद्रा कोष से प्राप्त अचल संपत्ति शामिल है या विरासत/विरासत के माध्यम से मेरे/हमारे NRO खाते में जमा की जाएगी। मैं/हम जानते हैं कि एक निवासी भारतीय से उपहार/दान/ऋण का प्रतिनिधित्व करने वाले क्रेडिट को बैंक के पास रखे गए NRO खाते में जमा नहीं किया जा सकता है और मैं/हम यह सुनिश्चित करूँगे कि इस तरह के क्रेडिट NRO खाते में नहीं किए गए हैं।

xiii. मुझे पता है कि किसी भी बैंक द्वारा जारी किए गए अंतरराष्ट्रीय वेधता वाले क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भारत के बाहर मेरे द्वारा किए गए लेनदेन के संबंध में विदेशी मुद्रा में अपने भुगतान दायित्वों का निर्वहन करने के लिए मेरे NRO खाते में मेरे द्वारा रखे गए धन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

मैं समझता/समझती हूँ कि FATCA घोषणा में अपने निवास का देश नहीं बताकर, मेरा मतलब है कि यह या तो मेरे मामले में लागू नहीं है या मुझे अभी तक विदेशी देश में अपनी कर पहचान संख्या प्राप्त नहीं हुई है। मैं यह भी समझता हूँ कि FATCA की सूचना संबंधी आवश्यकताएं CBDT द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार हैं और मैं एतद्वारा पुष्टि करता हूँ कि मेरे/हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी सत्य/सही और पूर्ण है।

नवीनतम SOC के लिए कृपया हमारी www.equitasbank.com देखें।

आधार की सहमति, मैं/हम स्वेच्छा से आधार संख्या को संशोधित किए बिना अपने आधार कार्ड की एक प्रति जमा कर रहे हैं, क्योंकि मैं/हम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का लाभ उठाना चाहते/चाहते हैं

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त फॉर्म-60 अनुभाग में विवरण घोषित किया है

मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने नामांकन अनुभाग में विवरण प्रदान किया है।

इस खाते के लिए आवश्यक औसत मासिक शेषकुल संबंध मूल्य है मैं/हम समझ गए हैं कि औसत शेष राशि का रखरखाव न करने पर SOC खाते के चयनित प्रकार के लिए नियम और शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

मैं/हम यह भी पुष्टि करते हैं कि खाता बैंक अधिकारी श्री/सुश्री द्वारा खोला गया था और

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने खाता खोलने के उद्देश्य से सभी आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं।

1 कृपया पहला आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर किए जाने वाले फोटो का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं। पहला आवेदक नीचे हस्ताक्षर करें	2 कृपया दूसरा आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर किए जाने वाले फोटो का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं। दूसरा आवेदक नीचे हस्ताक्षर करें
1 दिनांक:	2 दिनांक:

बैंक के उपयोग के लिए लीड का स्रोत शाखा बिक्री BC/BF अन्य लीड जनरेटर कोड लीड कनवर्टर कोड

KYC प्रमाणन (लीड कन्वर्टर)

ग्राहक ने मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं और मैंने KYC सत्यापन किया है और दिए गए डाक पते पर ग्राहक से मुलाकात की है। मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने उत्पाद के बारे में सभी विवरणों की व्याख्या कर दी है और ब्रोशर और शुल्कों की अनुसूची की एक प्रति सौंप दी है और ग्राहक को सभी नियमों और शर्तों के बारे में विस्तार से बताया है।

हस्ताक्षर	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी कोडज	दिनांक
प्री वेलकम कॉलिंग द्वारा की गई		शाखा प्रबंधक / SOM का नाम :	
हस्ताक्षर		शाखा प्रबंधक / SOM कोड :	
कर्मचारी कोड			
कर्मचारी का नाम		शाखा प्रबंधक / SOM के हस्ताक्षर शाखा के गोल मोहर के साथ	

फोन बैंकिंग
टोल मुक्त नंबर: 1800-3000-1222

ईमेल
nri@equitasbank.com

नेट बैंकिंग
www.equitasbank.com

अतिरिक्त घोषणाएं (यदि लागू हो तो भरें)

नाबालिग घोषणा प्रपत्र

अभिभावक के प्रकार: पिता माता कोर्ट नियुक्त वसीयतनामा संरक्षक

अभिभावक का पूरा नाम श्री/सुश्री.....
मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि जो कि मेरा..... है नाबालिग की जन्म तिथि DD/MM/YYYY है और मैं अदालत के आदेश, दिनांक ____/____/____ (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा नियुक्त उसका प्राकृतिक और वैध अभिभावक/अभिभावक हूँ। जब तक उक्त नाबालिग वयस्क नहीं हो जाता, मैं उपरोक्त खाते में किसी भी विवरण के भविष्य के सभी लेनदेन में उक्त नाबालिग का प्रतिनिधित्व करूंगा। मेरे द्वारा उसके खाते में किए गए किसी भी निकासी/धुलें-देन के लिए उपरोक्त नाबालिग के दावे के खिलाफ मैं बैंक को क्षतिपूर्ति करता हूँ।

अभिभावक के हस्ताक्षर

अस्थायी प्रवेश / कार्य / निवास वीजा घोषणा

प्रबंधके,

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

..... शाखा

मैं/हम(खाताधारकों का नाम), अधोहस्ताक्षरी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में NRE/NRO खाता खोलने के इच्छुक हूँ।

मैंने/हमने बैंक को अपना/हमारा प्रविष्टि/कार्यनिवास वीजा/दिनांकजमा कर दिया है। (वीजा जारी करने की तारीख) इस उद्देश्य के लिए
(वीजा समाप्ति तिथि/तारीखों) को समाप्त हो रही है।

मैं/हम एतद्वारा बैंक को मेरे/हमारे नियमित वीजा की प्रति जारी करने के तुरंत बाद प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूँ और पुष्टि करते हूँ कि मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं है यदि बैंक उक्त खाते में लेनदेन को रोक देता है या मेरे/हमारे द्वारा नियमित वीजा प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में वीजा की समाप्ति की तारीख से 3 महीने के भीतर उक्त खाते को बंद कर देता है।

मैं/हम यह भी पुष्टि करते हैं कि यदि मैं/हम खाते के संयुक्त धारक हूँ तो यह प्रक्रिया भी लागू होगी।

हस्ताक्षर

पहला आवेदक

दूसरा आवेदक

समुद्री यात्री घोषणा प्रपत्र

भाग A – मेरिनर द्वारा घोषणा जो छुट्टी पर है

मैं एतद्वारा पुष्टि करता हूँ कि मैं (कंपनी) के साथ अपना अनुबंध पूरा करने के बाद अभी-अभी लौटा हूँ
..... (प्रिंसिपल का पता) में पंजीकृत।

मैं दिनों/महीनों के लिए छुट्टी पर हूँ और एक नए अनुबंध में शामिल हो रहा/रही..... हूँ।

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जमा किए गए निम्नलिखित दस्तावेजों के आधार पर कृपया मेरे नाम से एक NRE/NRO खाता खोलें।

- पासपोर्ट प्रतियां मेरी पिछली विदेश यात्रा को दर्शाती हैं
- नवीनतम अनुबंध प्रति
- CDC बुक की कॉपी

भाग B पहली बार नाविक के लिए लागू

नए अनुबंध पर यात्रा के लिए मेरिनर की घोषणा

मैं एतद्वारा पुष्टि करता हूँ कि मैं (प्रिंसिपल के पते) में पंजीकृत
..... (कंपनी) के साथ एक अनुबंध पर आगे बढ़ रहा/रही हूँ।

मैं अनुबंध पर से शामिल होऊंगा/गंधी

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जमा किए गए निम्नलिखित दस्तावेजों के आधार पर कृपया मेरे नाम से एक NRE/NRO खाता खोलें:

- पासपोर्ट की कॉपी
- अनुबंध की पुष्टि

मैं समझता हूँ कि खाता ब्लॉक स्थिति में खोला जाएगा और जब तक मैं निम्नलिखित दस्तावेज जमा नहीं करता, तब तक मेरी उस तक पहुंच नहीं होगी:

- भारत के बाहर मेरी यात्रा के बाहर निकलने और प्रवेश की मुहर दिखाने वाले पासपोर्ट पृष्ठ
- अनुबंध प्रति
- वीजा
- विदेश यात्रा का संकेत देने वाली CDC बुक की प्रति (मालवाहक जहाज के लिए लागू)

मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि यदि मैं अनुबंध पर आगे बढ़ने में असमर्थ हूँ और मेरे नाम पर अनिवासी खाते खोले गए हैं, तो मैं बैंक को सूचित करूंगा कि निवासी खातों को फिर से नामित किया गया है।

आपका भवदीय,

पावती – ग्राहक प्रति

पावती

खाता खोलने के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया गया

क्रमांक संख्या _____

ग्राहक का नाम: श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ./प्रो. _____

चेक नंबर _____ द्वारा भुगतान की गई _____ रुपये _____ पैसे की राशि।

नामांकित व्यक्ति का नाम: _____

बैंक अधिकारी का नाम _____

दिनांक _____

नामांकन फॉर्म जमा किया गया:

हाँ

नहीं

बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर



फोन बैंकिंग

टोल मुक्त नंबर: 1800-3000-1222



ईमेल

nri@equitasbank.com



नेट बैंकिंग

www.equitasbank.com